



TEST REQUISITION FORM

Patient Details

First Name: MRS. SAVITRI Last Name: _____

Age: 48 YEARS Gender: Male Female

Address: _____

Contact No.: _____

E-mail ID: _____

Referred by DR. MANJU YADAV Contact No.: _____

For Maternal Screening - Date of Birth: DD MM YYYY

Weight: _____ kg. Height: _____ ft _____ inches, LMP _____ Last Ultrasound Report

Test Name/Test Code

(Please refer to the Directory of Services for correct name and specimen type)

Biopsy

Billing Information

Client Name: YADAV PATH LAB (BHILWADI)

Client ID: _____

Total Amount: _____

Amount Received: _____ Receipt No.: _____

Amount Balance / Due : _____

Payment via: CASH CHEQUE CREDIT

Instructions to Laboratory/Clinical Information

Specimen Type Received (For MolQ use only)

Serum Bone Marrow CSF

Plasma: EDTA/FL/CIT FN Aspirate Fluid

SST Tissue Formalin BAL

W. Blood EDTA Paraffin Block Sputum

W. Blood Fluoride Smear Urine

W. Blood Heparin Slide (H&E) Stool

W. Blood Sodium Citrate Pus Swab

Blood Culture Bottle Others

Other Sample Type / Source : _____

Sent Specimen Information

Temperature: Ambient Refrigerated Frozen

Sample / Vial Type	Vial ID Barcode

Received Specimen Information (For MolQ use only)

Temperature: Ambient Refrigerated Frozen

Date: _____ Time: _____

Patient ID _____ No. of vials/container _____

Signature of Accessioning Officer(s)

Total No. of Vials/Container _____

Specimen Collection Information

Date: 7-1-18 Time: _____

Fasting: Yes No Fasting Period: _____ Hrs.

Collection by: _____

Urine Volume: _____ Hrs.

Patient Consent : I hereby authorize MolQ Laboratory to use and share with affiliates my personal information including but not limited to any condition / disease information etc. as may be necessary to perform the test or services etc. Medical records/information, to the extent of the applicable by laws and regulations, will be kept confidential and will not be made publicly available. Further, I authorize the use of the leftover specimens for immediate research and in future research of any kind and at any time in the future. The samples will be coded to maintain confidentiality and will be discarded as per the rules and regulations specified as applicable by law. In the event of any publication by MolQ Laboratory, patient's identity will remain confidential. I agree to this access of my medical records and specimen for diagnostic and research purpose.

Disclaimer : For any test/service related complain/query please contact MolQ Laboratory for resolution. In case of any dispute the jurisdiction will be Head Office, Dehradun, Uttarakhand. The financial liability or compensation of any sort is not more than MRP of the Test requested.

रोगी सहमति : मैं मोल्क्यु प्रयोगशाला को अधिकृत करता हूँ कि मेरी पूर्ण व्यक्तिगत जानकारी अपनी किसी भी शाखा के साथ साझा कर सकती है। मेरी बीमारी की हालत या सूचना का खुलासा अगर परीक्षण के संचालन के लिए आवश्यक है, तो मैं इसकी अनुमति देता हूँ यद्यपि यह जानकारी उस सीमा तक साझा की जाए जो कि कानूनी सीमा के अंतर्गत हो। मेरी इस प्रकार की जानकारी को पूर्ण रूप से गुप्त रखा जाए और सार्वजनिक रूप से उपलब्ध ना कराई जाए। इसके पश्चात मैं प्रयोगशाला को देबारा अधिकृत करता हूँ कि जो नमूना जाँच के लिए उपलब्ध करवाया था, उसमे से बचे हुए नमूने को प्रयोगशाला कमी भी और किसी भी समय किसी भी प्रकार के प्रयोग के लिए उपयोग में ला सकती है। शेष नमूने को पूर्ण रूप से अंकित किया जाए और गुप्त रूप से रखा जाए, जब इसको नष्ट किया जाए तो पूर्ण रूप से नियम और विनियमता का उपयोग किया जाए। किसी भी प्रकार के मोल्क्यु प्रयोगशाला के प्रकाशन में रोगी की निजी जानकारियों को पूर्ण रूप में गुप्त रखा जाएगा। मैं सहमत हूँ कि मेरी मेडिकल रिकॉर्ड और मेरे बचे हुए नमूने को नैदानिक प्रयोग और किसी भी प्रकार के अनुसंधान के लिए उपयोग में लिया जा सकता है।

अस्वीकृति : किसी भी जाँच सम्बन्ध शिकायत या जानकारी हेतु आप मोल्क्यु प्रयोगशाला को सम्पर्क कर सकते हैं, किसी भी प्रकार की कानूनी झगड़े हेतु हमारा मुख्यालय देहरादून, उत्तराखंड है, किसी भी जाँच का मूल्य उसके लिए अधिकतम फुटकर मूल्य से अधिक नहीं होगा।

Patient/Client/Doctor's Signature
Date: 7/1/18



LV4-1/110

SS HOSPITAL

ABSOLUTE HEALTH CARE

Care for your life....

Shaw Mrs. Savitri

Age 48

Date: *7/01/2018*

- Dr. Manju Yadav
MBBS, MS (Obst. & Gynae)
Ex-S.R. Safdarjung
SMS, Jaipur
Time :10-2 P.M. & 5-8 P.M.
Regd. No. RMC 12521
- Dr. Rajesh Yadav
MBBS, DNB
Medical Director
Ex-S.R. DDU, GGSH (Ortho)
- On Call Doctors
- Dr. Sandeep Chauhan
MBBS, MS (Ortho), DNB
Joint Replacement Surgeon
- Dr. Karan Yadav
ENT Specialist
(DLO, DNB)
- Dr. Manoj
MBBS, MS (General Surgeon)
- Dr. Deepak Kumar
MBBS, MS, MCH
Neurosurgeon
- Dr. Suresh Gupta
MBBS, MS (Ophthalmology)
- Dr. Chandrakanata kar
MBBS, MS (Surgery) M. Ch. (Urology)
- Dr. Manoj
MBBS, DFCD
- Dr. Rafeek
BPT (Physiotherapist)
- Dr. Gopesh Bansal
(Paeditrician)
- Dr. B.R. Choudhary
MBBS, MS

Cashless Facility Available:

- G.H.P.L.
- F.H.P.L.
- Cholamandlam Gen. Insur.
- Religare Health Insur.
- ICICI Prudential
- Vipul Medcrop
- Park Mediclaim
- Safeway
- Health India
- ICICI Lombard
- TTK Healthcare
- Genins India TPA LTD.
- HDFC ERGO

11 Extreme BPH isely

Mr. shaw → endometrial hyperplasia

*Endometrial sampling ~~done~~ values
and ref for HPR*

gms